



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3780]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 2018/आश्विन 2, 1940

No. 3780]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 2018/ASVINA 2, 1940

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2018

**का.आ. 4949(अ).**—जबकि, केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ओएनजीसी लिमिटेड कछार फॉरवर्ड बेस, श्रीकोना द्वारा असम राज्य के कछार जिले में भुबंदहर से धोनेहारी तक (बीयू-1 से बीके-2 वेधन स्थल तक) नीचे उल्लिखित अनुसूची के अनुसार मौजा और परगना में गैस पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कछार फॉरवर्ड बेस (कछार जिला क्षेत्राधिकार) के अंतर्गत भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम पदाधिकारी श्री. राजीव रॉय, अतिरिक्त उप आयुक्त, कछार, असम, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

## अनुसूची

जिला : कछार				राज्य : असम		
क्र. सं.	ग्राम का नाम	परगना	दाग संख्या	क्षेत्रफल		
				बीघा	कठ्ठा	छटाक
1	2	3	4	5	6	7
1	माझिरग्राम	सोनापुर	341 ख	00	03	10
			327 ख	01	02	07
			336 ख	00	06	10
			332 ख	00	05	03
			335 ख	00	15	02
			358 ख	00	03	06
			359 ख	00	02	12
			364 ख	00	01	06
			365 ख	00	01	06
			366 ख	00	03	06
			369 ख	00	03	06
			370 ख	01	02	04
			371 ख	00	03	15
			375 ख	00	03	15
			377 ख	00	03	15
			378 ख	00	03	15
			380 ख	00	03	06
			381 ख	00	02	01
			382 ख	00	02	01
			383 ख	00	03	10
			384 ख	00	03	10
			385 ख	00	01	13
			462 ख	00	04	09
			386 ख	00	04	05
			387 ख	00	01	09
			388 ख	00	01	07
			389 ख	00	02	12
			390 ख	00	01	15
			391 ख	00	07	12
			392 ख	00	03	10
			393 ख	00	01	07
			394 ख	00	04	13

395 ख	00	02	12
396 ख	00	02	12
397 ख	00	14	07
398 ख	00	01	00
399 ख	00	00	12
400 ख	00	00	08
401 ख	00	01	08
402 ख	00	02	09
403 ख	00	02	03

[फा. सं. EXPL-13011(26)/18/2018- EXPL-PNG]

राकेश मिश्रा, अवसर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2018

**S. O. 4949(E).**—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest to lay Gas Pipeline by ONGC Ltd. Cachar Forward Base, Srikona, from Bhubandahar to Dhonehari (BU-1 to BK-2 Drill Site) in Mouza and Pargona as per schedule mentioned below in the District Cachar, in the State of Assam.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Rajib Roy, Addl. Deputy Commissioner, Cachar, Assam, Competent Authority, for laying of pipeline under Cachar Forward Base (Cachar District Jurisdiction) by Oil and Natural Gas Corporation Limited.

**SCHEDULE**

District : Cachar				State : Assam		
Sr. No.	Name of Village	Porgona	Dag Number	Area		
				Bigha	Katha	Chatak
1	2	3	4	5	6	7
1	Majhirgram	Sonapur	341 Kha	00	03	10
			327 Kha	01	02	07
			336 Kha	00	06	10
			332 Kha	00	05	03
			335 Kha	00	15	02
			358 Kha	00	03	06
			359 Kha	00	02	12
			364 Kha	00	01	06
			365 Kha	00	01	06
			366 Kha	00	03	06
			369 Kha	00	03	06

			370 Kha	01	02	04
			371 Kha	00	03	15
			375 Kha	00	03	15
			377 Kha	00	03	15
			380 Kha	00	03	06
			381 Kha	00	02	01
			382 Kha	00	02	01
			383 Kha	00	03	10
			384 Kha	00	03	10
			385 Kha	00	01	13
			462 Kha	00	04	09
			386 Kha	00	04	05
			387 Kha	00	01	09
			388 Kha	00	01	07
			389 Kha	00	02	12
			390 Kha	00	01	15
			391 Kha	00	07	12
			392 Kha	00	03	10
			393 Kha	00	01	07
			394 Kha	00	04	13
			395 Kha	00	02	12
			396 Kha	00	02	12
			397 Kha	00	14	07
			398 Kha	00	01	00
			399 Kha	00	00	12
			400 Kha	00	00	08
			401 Kha	00	01	08
			402 kha	00	02	09
			403 Kha	00	02	03

[F. No. EXPL-13011(26)/18/2018- EXPL-PNG]  
RAKESH MISHRA, Under Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2018

**का.आ. 4950(अ).**—जबकि, केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ओएनजीसी लिमिटेड कछार फॉरवर्ड बेस, श्रीकोना द्वारा असम राज्य के कछार जिले में भुबंदहर से धोनेहारी तक (बीयू-1 से बीके-2 वेधन स्थल तक) नीचे उल्लिखित अनुसूची के अनुसार मौजा और परगना में गैस पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कछार फॉरवर्ड वेस (कछार जिला क्षेत्राधिकार) के अंतर्गत भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम पदाधिकारी श्री. राजीव राँय, अतिरिक्त उप आयुक्त, कछार, असम, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

### अनुसूची

जिला : कछार				राज्य : असम		
क्र. सं.	ग्राम का नाम	परगना	दाग संख्या	क्षेत्रफल		
				बीघा	कठ्ठा	छटाक
1	2	3	4	5	6	7
1	तुलारग्राम भाग-II	सोनापुर	146 ख	00	08	07
	ब्लॉक ए		147 ख	00	04	07
			149 ख	00	05	12
2	तुलारग्राम भाग-II	सोनापुर	243 ख	01	07	10
	ब्लॉक बी		245 ख	00	06	11
			246 ख	00	02	10
			247 ख	00	07	15
			254 ख	00	08	07
			255 ख	00	01	07
			263 ख	00	02	08
			264 ख	00	01	14
			269 ख	00	01	07
			270 ख	00	01	15
			274 ख	00	02	15
			275 ख	00	01	08
			280 ख	00	02	09
	281 ख	00	02	15		
	283 ख	00	01	13		

[फा. सं. EXPL-13011(26)/18/2018- EXPL-PNG]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2018

**S. O. 4950(E).**—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest to lay Gas Pipeline by ONGC Ltd. Cachar Forward Base, Srikona, from Bhubandahar to Dhonehari (BU-1 to BK-2 Drill Site) in Mouza and Pargona as per schedule mentioned below in the District Cachar, in the State of Assam.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Rajib Roy, Addl. Deputy Commissioner, Cachar, Assam, Competent Authority, for laying of pipeline under Cachar Forward Base (Cachar District Jurisdiction) by Oil and Natural Gas Corporation Limited.

**SCHEDULE**

District : Cachar				State : Assam		
Sr. No.	Name of Village	Porgona	Dag Number	Area		
				Bigha	Katha	Chatak
1	2	3	4	5	6	7
1	Tulargram Pt-II Block A	Sonapur	146 Kha	00	08	07
			147 Kha	00	04	07
			149 Kha	00	05	12
2	Tulargram Pt-II Block B	Sonapur	243 Kha	01	07	10
			245 Kha	00	06	11
			246 Kha	00	02	10
			247 Kha	00	07	15
			254 Kha	00	08	07
			255 Kha	00	01	07
			263 Kha	00	02	08
			264 Kha	00	01	14
			269 Kha	00	01	07
			270 Kha	00	01	15
			274 Kha	00	02	15
			275 Kha	00	01	08
			280 Kha	00	02	09
			281 Kha	00	02	15
			283 Kha	00	01	13

[F. No. EXPL-13011(26)/18/2018- EXPL-PNG]

RAKESH MISHRA, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2018

**का.आ. 4951(अ).**—जबकि, केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ओएनजीसी लिमिटेड कछार फॉरवर्ड बेस, श्रीकोना द्वारा असम राज्य के कछार जिले में भुबंदहर से धोनेहारी तक (बीयू-1 से बीके-2 वेधन स्थल तक) नीचे उल्लिखित अनुसूची के अनुसार मौजा और परगना में गैस पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कछार फॉरवर्ड बेस (कछार जिला क्षेत्राधिकार) के अंतर्गत भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम पदाधिकारी श्री. राजीव रॉय, अतिरिक्त उप आयुक्त, कछार, असम, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

### अनुसूची

जिला : कछार				राज्य : असम		
क्र. सं.	ग्राम का नाम	परगना	दाग संख्या	क्षेत्रफल		
				बीघा	कठ्ठा	छटाक
1	2	3	4	5	6	7
1	नगदीग्राम	बोनराज	692 ख	01	02	15
	भाग-III		681 ख	00	00	13
			682 ख	00	05	06
			690 ख	00	07	05
			691 ख	00	06	11
			892 ख	00	05	02
			890 ख	00	14	03
			891 ख	00	01	15
			889/1030 ख	00	01	14

[फा. सं. EXPL-13011(26)/18/2018- EXPL-PNG]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2018

**S. O. 4951(E).**—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest to lay Gas Pipeline by ONGC Ltd. Cachar Forward Base, Srikona, from Bhubandahar to Dhonehari (BU-1 to BK-2 Drill Site) in Mouza and Pargona as per schedule mentioned below in the District Cachar, in the State of Assam.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Rajib Roy, Addl. Deputy Commissioner, Cachar, Assam, Competent Authority, for laying of pipeline under Cachar Forward Base (Cachar District Jurisdiction) by Oil and Natural Gas Corporation Limited.

#### SCHEDULE

District : Cachar				State : Assam		
Sr. No.	Name of Village	Porgona	Dag Number	Area		
				Bigha	Katha	Chatak
1	2	3	4	5	6	7
1	Nagdirgram Pt-III	Bonraj	692 Kha	01	02	15
			681 Kha	00	00	13
			682 Kha	00	05	06
			690 Kha	00	07	05
			691 Kha	00	06	11
			892 Kha	00	05	02
			890 Kha	00	14	03
			891 Kha	00	01	15
			889/1030 Kha	00	01	14

[F. No. EXPL-13011(26)/18/2018-EXPL-PNG]

RAKESH MISHRA, Under Secy.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2018

**का.आ. 4952(अ).**—जबकि, केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ओएनजीसी लिमिटेड कछार फॉरवर्ड बेस, श्रीकोना द्वारा असम राज्य के कछार जिले में भुबंदहर से धोनेहारी तक (वीयू-1 से बीके-2 वेधन स्थल तक) नीचे उल्लिखित अनुसूची के अनुसार मौजा और परगना में गैस पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कछार फॉरवर्ड बेस (कछार जिला क्षेत्राधिकार) के अंतर्गत भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम पदाधिकारी श्री. राजीव रॉय, अतिरिक्त उप आयुक्त, कछार, असम, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।



## अनुसूची

जिला : कछार				राज्य : असम		
क्र. सं.	ग्राम का नाम	परगना	दाग संख्या	क्षेत्रफल		
				बीघा	कठ्ठा	छटाक
1	2	3	4	5	6	7
1	रुकनी च ब्रगीचा	डैविडसोनाबाद	130/835 ख	00	00	09
	ब्लॉक ए		130/834 ख	00	02	09
			130 ख	00	07	14
			130/851 ख	00	03	11
			130/843 ख	00	04	09
			230/832 ख	00	05	08
			130/833 ख	00	03	11
			146/873 ख	00	09	01
			146 ख	00	10	15
			146/874	00	02	12
			147 ख	00	08	10
			147/876 ख	00	06	06
			148 ख	00	11	06
			148/877 ख	00	00	03
			142 ख	00	05	13
			142/865 ख	00	05	04
			151/879 ख	00	00	12
			151/879 ग	00	01	09
			151 ख	00	02	13
			151/880 ख	00	08	05
			168/915 ख	00	02	04
			168/914 ख	00	03	07
			168/916 ख	00	03	13
			168 ख	00	02	02
			168/913 ख	00	03	13
			170/706 ख	00	02	02
			170/921 ख	00	01	04
			171/677 ख	00	13	07
			182 ख	00	04	04
			171/680 ख	00	06	03
			184 ख	00	07	04
			171/679 ख	00	16	15

	185 ख	00	08	01
	171/678 ख	00	02	09
	180 ख	00	01	04
	179 ख	00	06	03
	188 ख	00	09	12
	179 ग	00	02	15
	183 ख	02	12	14
	179 घ	04	18	14
	231 ख	00	04	04
	179 ङ	00	03	01
	230 ख	01	00	15
	179 च	00	06	02
	650 ख	00	13	01
	179 छ	01	00	02
	277 ख	00	03	15
	278 ख	00	03	15
	277 ग	00	05	02
	276 ख	01	05	01
	281 ख	00	01	04
	312 ख	00	08	11
	313 ख	01	02	12
	312 ग	00	09	02
	364 ख	00	01	08
	320 ख	00	18	13
	321 ख	01	03	01
	366 ख	00	10	02
	364 ग	00	01	14
	363 ख	01	05	03
	362 ख	00	19	09
	363 ग	00	03	05
	170/713 ख	00	02	00
	170/714 ख	00	02	09
	170 ख	00	07	02
रुकनी च बगीचा	डैविडसोनाबाद	359 ख	00	02
ब्लॉक बी		441 ख	00	04
		436 ख	01	02
		437 ख	00	04

468 ख	02	18	11
483 ख	00	12	09
502 ख	00	05	03
503 ख	00	05	13
504 ख	00	03	15
507 ख	00	19	11
511 ख	00	14	09
510 ख	00	10	07
484 ख	05	17	05

[फा. सं. EXPL-13011(26)/18/2018- EXPL-PNG]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2018

**S. O. 4952(E).**—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest to lay Gas Pipeline by ONGC Ltd. Cachar Forward Base, Srikona, from Bhubandahar to Dhonehari (BU-1 to BK-2 Drill Site) in Mouza and Pargona as per schedule mentioned below in the District Cachar, in the State of Assam.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Rajib Roy, Addl. Deputy Commissioner, Cachar, Assam, Competent Authority, for laying of pipeline under Cachar Forward Base (Cachar District Jurisdiction) by Oil and Natural Gas Corporation Limited.

**SCHEDULE**

District : Cachar				State : Assam		
Sr. No.	Name of Village	Porgona	Dag Number	Area		
				Bigha	Katha	Chatak
1	2	3	4	5	6	7
1	Rukni Cha Bagicha Block A	Davidsonabad	130/835 Kha	00	00	09
			130/834 Kha	00	02	09
			130 Kha	00	07	14
			130/851 Kha	00	03	11
			130/843 Kha	00	04	09
			230/832 Kha	00	05	08
			130/833 Kha	00	03	11
			146/873 Kha	00	09	01
			146 Kha	00	10	15
			146/874	00	02	12
			147 Kha	00	08	10
			147/876 Kha	00	06	06
			148 Kha	00	11	06

148/877 Kha	00	00	03
142 Kha	00	05	13
142/865 Kha	00	05	04
151/879 Kha	00	00	12
151/879 Ga	00	01	09
151 Kha	00	02	13
151/880 Kha	00	08	05
168/915 Kha	00	02	04
168/914 Kha	00	03	07
168/916 Kha	00	03	13
168 Kha	00	02	02
168/913 Kha	00	03	13
170/706 Kha	00	02	02
170/921 Kha	00	01	04
171/677 Kha	00	13	07
182 Kha	00	04	04
171/680 Kha	00	06	03
184 Kha	00	07	04
171/679 Kha	00	16	15
185 Kha	00	08	01
171/678 Kha	00	02	09
180 Kha	00	01	04
179 Kha	00	06	03
188 Kha	00	09	12
179 Ga	00	02	15
183 Kha	02	12	14
179 Gha	04	18	14
231 Kha	00	04	04
179 Unga	00	03	01
230 Kha	01	00	15
179 Cha	00	06	02
650 Kha	00	13	01
179 Chha	01	00	02
277 Kha	00	03	15
278 Kha	00	03	15
277 Ga	00	05	02
276 Kha	01	05	01
281 Kha	00	01	04
312 Kha	00	08	11
313 Kha	01	02	12
312 Ga	00	09	02
364 Kha	00	01	08
320 Kha	00	18	13
321 Kha	01	03	01
366 Kha	00	10	02
364 Ga	00	01	14
363 Kha	01	05	03
362 Kha	00	19	09
363 Ga	00	03	05

		170/713 Kha	00	02	00
		170/714 KHa	00	02	09
		170 Kha	00	07	02
Rukni Cha Bagicha	Davidsonabad	359Kha	00	02	11
Block B		441kha	00	04	08
		436Kha	01	02	12
		437Kha	00	04	12
		468Kha	02	18	11
		483Kha	00	12	09
		502Kha	00	05	03
		503Kha	00	05	13
		504Kha	00	03	15
		507Kha	00	19	11
		511Kha	00	14	09
		510Kha	00	10	07
		484Kha	05	17	05

[F. No. EXPL-13011(26)/18/2018-EXPL-PNG]

RAKESH MISHRA, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2018

**का.आ. 4953(अ).**—जबकि, केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ओएनजीसी लिमिटेड कछार फॉरवर्ड बेस, श्रीकोना द्वारा असम राज्य के कछार जिले में भुवन्दहर से धोनेहारी तक (बीयू-1 से बीके-2 वेधन स्थल तक) नीचे उल्लिखित अनुसूची के अनुसार मौजा और परगना में गैस पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कछार फॉरवर्ड बेस (कछार जिला क्षेत्राधिकार) के अंतर्गत भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम पदाधिकारी श्री. राजीव रॉय, अतिरिक्त उप आयुक्त, कछार, असम, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

**अनुसूची**

जिला : कछार				राज्य : असम		
क्र. सं.	ग्राम का नाम	परगना	दाग संख्या	क्षेत्रफल		
				बीघा	कठ्ठा	छटाक
1	2	3	4	5	6	7
1	रुकनी भाग - II	सोनापुर	724 ख	00	03	15
			726 ख	00	08	08
			727/1193 ख	00	05	03

730/1195 ख	00	05	03
741 ख	03	02	07
740 ख	00	07	13
740/1205 ख	00	06	13
1207 ख	00	03	15
1208 ख	00	03	15
1209 ख	00	02	13
1210 ख	00	02	13

[फा. सं. EXPL-13011(26)/18/2018- EXPL-PNG]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2018

**S.O. 4953(E).**—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest to lay Gas Pipeline by ONGC Ltd. Cachar Forward Base, Srikona, from Bhubandahar to Dhonehari (BU-1 to BK-2 Drill Site) in Mouza and Pargona as per schedule mentioned below in the District Cachar, in the State of Assam.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Rajib Roy, Addl. Deputy Commissioner, Cachar, Assam, Competent Authority, for laying of pipeline under Cachar Forward Base (Cachar District Jurisdiction) by Oil and Natural Gas Corporation Limited.

**SCHEDULE**

District : Cachar				State : Assam		
Sr. No.	Name of Village	Porgona	Dag Number	Area		
				Bigha	Katha	Chatak
1	2	3	4	5	6	7
1	Rukni Pt-II	Sonapur	724 Kha	00	03	15
			726 Kha	00	08	08
			727/1193 Kha	00	05	03
			730/1195 Kha	00	05	03
			741Kha	03	02	07
			740Kha	00	07	13
			740/1205Kha	00	06	13
			1207Kha	00	03	15
			1208Kha	00	03	15
			1209Kha	00	02	13
			1210Kha	00	02	13

[F. No. EXPL-13011(26)/18/2018-EXPL-PNG]

RAKESH MISHRA, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2018

**का.आ. 4954(अ) .—**जबकि, केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **ओएनजीसी लिमिटेड कछार फॉरवर्ड बेस, श्रीकोना द्वारा असम राज्य के कछार जिले में भुबंदहर से धोनेहारी तक (बीयू-1 से बीके-2 वेधन स्थल तक)** नीचे उल्लिखित अनुसूची के अनुसार मौजा और परगना में गैस पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कछार फॉरवर्ड बेस (कछार जिला क्षेत्राधिकार) के अंतर्गत भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम पदाधिकारी श्री. राजीव रॉय, अतिरिक्त उप आयुक्त, कछार, असम, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

**अनुसूची**

जिला : कछार		राज्य : असम				
क्र. सं.	ग्राम का नाम	परगना	दाग संख्या	क्षेत्रफल		
				बीघा	कठ्ठा	छटाक
1	2	3	4	5	6	7
1	रुकनी भाग-1	दैविदसोनाबाद	173 ख	00	06	08
			175 ख	00	09	14
			176 ख	00	01	08

[फा. सं. EXPL-13011(26)/18/2018-EXPL-PNG]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2018

**S. O. 4954(E).—** Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest to lay **Gas Pipeline by ONGC Ltd. Cachar Forward Base, Srikona, from Bhubandahar to Dhonehari (BU-1 to BK-2 Drill Site)** in Mouza and Pargona as per schedule mentioned below in the District Cachar, in the State of Assam.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Rajib Roy, Addl. Deputy Commissioner, Cachar, Assam, Competent Authority, for laying of pipeline under Cachar Forward Base (Cachar District Jurisdiction) by Oil and Natural Gas Corporation Limited.

#### SCHEDULE

District : Cachar				State : Assam		
Sr. No.	Name of Village	Porgona	Dag Number	Area		
				Bigha	Katha	Chatak
1	2	3	4	5	6	7
1	Rukni Pt-1	Davidsonabad	173Kha	00	06	08
			175Kha	00	09	14
			176Kha	00	01	08

F. No. EXPL-13011(26)/18/2018-EXPL-PNG]

RAKESH MISHRA, Under Secy.